

करी नं० 1 के०#०: 2,483

(पृष्ठ-1)

क्रम संख्या : 38 / 73

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला)
प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त होने का दिनांक 27-Feb-2019

शक्ति रावल
Sale (Immovable)

Transvalue: 600,000.00 / Mvalue: 583,000.00 / Advance: 0.00

1	निम्नलिखित शून्यः	12,000.00
2	प्रतिनिधिकरण शून्यः	10.00
3	इलेक्ट्रॉनिक शुल्क	260.00
4	निरीक्षण या तलाश शुल्क	0.00
5	मुल्कारनामा के अभिलेखिकरण के लिए शुल्क	0.00
6	कमीशन शुल्क	0.00
7	नकल शुल्क	0.00
8	विविध	0.00
9	यात्रिक भना	0.00
10	कम निम्नलिखित शून्यः	0.00
11	योग	12,270.00

27-Feb-2019

12,270.00

अभिधिक-तृतीय

देखादून

शून्यक दस्तावेज करने का दिनांक 27-Feb-2019
दिनांक तब लेख प्रतिनिधि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 27-Feb-2019



Online Public Data Entry Summary



DISTRICT NAME : देहरादून BRO : देहरादून

UKPDE2019045106553

27-Feb-2019

5:46:59PM

Appointment Date: _____ Appointment Time: _____ Appointment TokenNo: _____
 Mode/Article Type: Sale (Immovable)
 Sub-Deed-Sub-Article: Sale (Residential Building) **2483**
 Village/Location For Index: गाथा भवन इस्टेट, मुख्य भाग में आगे की ओर मुकामालक खुल में सड़क से ऊपरी भाग एवं सर्वेक्टर रोड में मानव
 Village/Location/Road Selected for Circle RateList: गाथा भवन इस्टेट, मुख्य भाग में आगे की ओर मुकामालक खुल में सड़क से ऊपरी भाग एवं
 Khewat: 0 Khatoni: 0
 Khasra: Nagar Palika No. G 2
 House/Flat No: Flat
 Area: 31.10 वर्ग मीटर
 Latitude: 30.4527710000 Longitude: 78.0574890000
 Land Value: 583,000.00 Construction Value: 0.00
 Transaction Value: 600,000.00 Market Value: 583,000.00
 Advance: 0.00 Lease Period: 0.00 Avg. Rent: 0.00
 Stamp Duty: 22,500.00 Regn Fees: 12,000.00
 Words: 1,000 Page: 26
 Female Buyer Rebate is Taken in Stamp Duty.

आवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	रकबा	रकबा	रकबा	रकबा
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं.	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण रकबा	हाथ चर्च	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं.	मुगवान की विधि	धनराशि	संरक्षक क्रमांक	धारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Payment	12,000.00	0		
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं.	मुगवान की विधि	धनराशि	संरक्षक क्रमांक	धारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	22,500.00	0	27-Feb-2019	0

R. Narain

Bansal

Rishu



Appointment Time:

Appointment TokenNo:

पदाधारों का विवरण

पदाधार का विवरण	हस्ताक्षर	प्रकार	पैन नं	मोबाइल नं	संबंधित पत्र संख्या
श्री अरुण कुमार शर्मा पुत्र श्री अरुण कुमार शर्मा निवासी राम नभेनिया पोस्ट बिचकथा तहसील बिन्दकी फतेहपुर उत्तर प्रदेश हान पता बिचकथा मेडीहरी ए- ४०४, १२ बजेट रोड बालनबागा देहरादून	<i>R. Kumar</i>	OTHERS		0	PAN CARD AGEPS6906M
श्रीमती आति रावत पत्नी श्री अमर पास सिंह राज्य निवासी श्री ए. संकर १ डिपेंस कॉलोनी देहरादून उत्तरांचल	<i>Raawat</i>	OTHERS		0	PAN CARD BXVPR0630N
श्री रजिंदर सिंह बुटोना पुत्र श्री अजय सिंह बुटोना निवासी बुटोना निवास एने डीन बटिन भमुरी जिला देहरादून	<i>R. Singh</i>	OTHERS		0	ADHAAR : 7941 73871643
श्री अमर पास सिंह रावत पुत्र श्री गुमान सिंह राज्य निवासी श्री ए. संकर १ डिपेंस कॉलोनी देहरादून	<i>[Signature]</i>	OTHERS		0	ADHAAR : 9502 0366 1604

Deed Writer /Advocate Name : Bikram Singh Rana



2483

Rawat

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
SHANTI RAWAT
KUSHAL SINGH NEGI
05-05-1982
BXNPR0530N

भारत सरकार
GOVT OF INDIA

आयकर
सर्वर



भारत सरकार
GOVT OF INDIA

रविंदर सिंह बुटोला
Ravinder Singh Butola
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1977
पुरुष / MALE

7941 7387 1643

आधार - आम आदमी का अधिकार

119 40

भारत सरकार
Government of India

अमर पाल सिंह रावत
AMAR PAL SINGH RAWAT
पिता : गुमान सिंह रावत
Father: GUMAN SINGH RAWAT
जन्म तिथि/DOB: 05/11/1955
पुरुष / Male


9502 0366 1604

आधार - आम आदमी का अधिकार

[Handwritten signature]



2403




R-Narain



2403

सम्पत्ति संख्या जी-2 (मध्य भूतल) दून व्यू कॉटेज जो कि राधा भवन इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है, स्थित सर्कुलर रोड, मसूरी, देहरादून पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल 335.9 वर्गफीट यानि 31.1 वर्गमीटर सुपर एरिया जिसमें एक बैड रूम, ड्राईंग कम डाइनिंग रूम, एक किचन, बाथरूम।



R. Narain
हो विक्रेता

Bansal
हो क्रयता



Scanned with
CamScanner

2403



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK00204745059205FI
Certificate Issued Date	: 27-Feb-2019 04:57 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1203204/DEHRADUN/UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120320414241882332464R
Purchased by	: SMT SHANTI RAWAT
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: CIRCULAR ROAD, MUSSOORIE, DEHRADUN
Consideration Price (Rs.)	: 6,00,000 (Six Lakh only)
First Party	: SHRI R NARAYAN
Second Party	: SMT SHANTI RAWAT
Stamp Duty Paid By	: SMT SHANTI RAWAT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 22,500 (Twenty Two Thousand Five Hundred only)

VIJAY KUMAR AGGARWAL
STAMP VENDOR
Court Compound, DEHRADUN



Please write or type below this line.....



R Narayan



Rawat

TQ 0008367383

Warning with
Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.indiastamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

विक्रय पत्र

मैं कि श्री आर० नारायण पुत्र स्व. श्री मुंगली प्रसाद निवासी ग्राम नसेनियां, पो.ओ. डिघरुआ, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर, उ०प्र०, हाल निवासी विण्डलास रेजीडेन्सी, ए-404, 12 कर्जन रोड, डालनवाला, देहरादून।

----- विक्रेता

एवम्

श्रीमती शांति रावत पत्नी श्री अमर पाल सिंह रावत निवासी सी-10, सेक्टर 1, डिफेन्स कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

----- क्रेता

विदित हो कि विक्रेता वर्णित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है, का मालिक स्वामी काबिज है, तथा विक्रेता ने वर्णित सम्पत्ति द्वारा रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 10-03-2014 जो कार्यालय सब रजिस्ट्रार मसूरी, जिला देहरादून में यही नंबर 1, जिल्द नंबर 220 के पृष्ठ संख्या 98:ए.डी.फ़.बु. नंबर 1, जिल्द नंबर 245 के पेज 39 से 58, में दस्तावेज नं. 28 में विधिवत रूप से दर्ज एवं पंजीकृत है, अपनी पत्नी श्रीमती सपना पत्नी आर० नारायण से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी, तथा विक्रेता का नाम नगर पालिका मसूरी में बतौर स्वामी दर्ज एवं अंकित है, तथा विक्रेता को निम्न वर्णित सम्पत्ति को इस प्रकार से विक्रय, उपयोग, हस्तान्तरण आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वर्णित सम्पत्ति आज तक हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय, ऋण, कुर्की, जमानत एवं विवादों से पूर्ण रूप से मुक्त है, इस प्रकार विक्रीत सम्पत्ति को विक्रय किये जाने में कोई बाधा नहीं है।



विदित हो कि विक्रेता निम्न वर्णित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख की सूची के अन्त में दिया गया है, को मु० 6,00,000/- (छः लाख रुपये) की एवज में विक्रय करने को सहमत हैं और क्रेता भी इसी कीमत पर क्रय करने को सहमत है, इस कारण यह विक्रय विलेख अंकित किया जा रहा है।

R. Narain

Bansal


Sale (Immovable)
 Sale (Residential Building)

वैधिमूल्य ₹: 60,00,000/-
 सालाना मूल्य: 5,83,000/-

मैं श्री राजेश कुमार शर्मा के द्वारा श्री आर. नारायण शर्मा
 के द्वारा निम्नलिखित कमीशन/दिनांक 26 Feb 2019
 के अनुसार आज दिनांक 27 Feb 2019
 समस्त गृहस्थ न. 10/11/12 को अंश द्वारा
 निर्धारित स्थान उपनिवेशक कार्यालय के मुख्या
 पर पंजीयन अर्थात् पंजीयन नं. 10/11/12
 श्री आर. नारायण शर्मा श्री स्व. संगीता प्रसाद निवासी ग्राम
 निसर्गिया पोस्ट डिधरुआ तहसीला बिंदकी फतेहपुर उ.प्र. हाल मता
 विडलास रजिडरी नं. 10/11/12 कर्जन रोड इलनवाला देहरादून
 निष्पादन किया।

सब रजिस्ट्रार III
 देहरादून
 27 Feb 2019

R. K. Kataria



इस लेखमत्र का निष्पादन किया श्री आर. नारायण शर्मा
 श्री स्व. संगीता प्रसाद निवासी ग्राम निसर्गिया पोस्ट डिधरुआ
 तहसीला बिंदकी फतेहपुर उत्तर प्रदेश हाल मता विडलास
 रजिडरी नं. 10/11/12 कर्जन रोड इलनवाला देहरादून
 का विक्रय धन मुल्यांकन ₹ 6,00,000/- प्रतिबन्धनानुसार पंजीयन
 निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखमत्र का निष्पादन श्री
 श्रीमती संगीता प्रसाद निवासी श्री अमरमाल सिंह रावत
 निवासी सी. 10, सेक्टर 1 डिफेंस कॉलोनी देहरादून ने
 श्री स्वीकार किया।

सब रजिस्ट्रार III
 देहरादून
 27 Feb 2019

अतः यह विलेख निम्न साक्ष्यांकित करता है:-

1. यह कि विक्रेता ने इस विक्रय पत्र में वर्णित सम्पत्ति व उसमें निहित अपने समस्त अधिकार, सुखाधिकार जिसमें हवा, पानी, रास्ता, नाली आदि के अधिकार भी सम्मिलित है तथा वे अधिकार जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त हैं और भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं, स्थायी रूप से सदैव हेतु क्रेता को विक्रीत प्रतिफल राशि मु० 6,00,000/- (छः लाख रुपये) की एवज में विक्रीत, अन्तरित, व हस्तांतरित कर दी है तथा सूची में वर्णित सम्पत्ति से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर अपने समान ही क्रेता को स्थल पर बतौर मालिक, स्वामी, अध्यासी करा दिया है।
2. यह कि विक्रेता ने क्रेता से निम्न वर्णित सम्पत्ति का सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल मु० 6,00,000/- (छः लाख रुपये) द्वारा आर.टी.जी.एस. संख्या CNRBR 52019022700613072 केनरा बैंक शास्त्री नगर देहरादून दिनांक 27-02-2019 का प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति विक्रेता अपनी पूर्ण संतुष्टि में स्वीकार करते हैं, विक्रय मूल्य की बाबत क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।
3. यह कि आज से विक्रेता का सूची में वर्णित सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कोई हक या अधिकार नहीं रहा है, आज से क्रेता सूची में वर्णित सम्पत्ति की स्वामी, अध्यासी कायिज हो गयी है, तथा क्रेता को अधिकार होगा कि वे सूची में वर्णित भूमि को जिस प्रकार चाहे प्रयोग, उपयोग, उपभोग करें, निर्माण करें, रिहायश करे, या अन्य व्यक्ति को विक्रय, अन्तरित व हस्तांतरित करे, इसमें विक्रेतागण या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति आपत्ति करने के अधिकारी नहीं होंगे।
4. यह कि सूची में वर्णित सम्पत्ति की बाबत आज तक के समस्त टैक्स, विजली, पानी के बिल आदि जो होंगे उनको अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी और आज के बाद की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
5. यह कि क्रेता को अधिकार होगा कि नगर निगम अभिलेखों से विक्रेता का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक, स्वामी दर्ज व अंकित कराये, नामान्तरण की कार्यवाही में विक्रेता, क्रेता का सहयोग करेंगे।




R. Khandelwal

Bansal




श्री गुजाल सिंह बुढोला
श्री अखिल सिंह बुढोला
जिवासी बुढोला निवास पले ग्राज कोटज
सम्बन्धी, देलनूज एवं श्री अमरपाल सिंह रावत
शुक्ल श्री गुजाल सिंह रावत
निवासी सी-10, सेक्टर 1 डिफेंस कॉलोनी देलनूज चे की,

उप लिखित बात
देलनूज
27 Feb 2019



R. N. A. S.

R. N. A. S.



सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार
लिय गए।

27 Feb 2019

6. यह कि भविष्य में यदि क्रेता को विक्रेता से सूची में वर्णित सम्पत्ति की यावत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अंकित करवाने या बयान आदि दिलाने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी कार्यवाही विक्रेता, क्रेता के व्यय व अनुरोध पर करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे।
7. यह कि भविष्य में विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति या उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण अध्यासन से निकल जाता है, अथवा क्रेता को विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण कोई हानि होती है तो ऐसी हानि की क्षति-पूर्ति पूरी करने का उत्तरदायित्व विक्रेता का होगा।
8. यह कि विक्रेता ने निम्न वर्णित सम्पत्ति का कब्जा स्थल पर क्रेता को अपने समतुल्य पाक व साफ दशा में करा दिया है।

: वांछित-विवरण :

1. दोनों पक्षों के मध्य कोई रजिस्टर्ड अनुबन्ध पत्र अंकित नहीं है।
2. विक्रीत सम्पत्ति में कोई पेड़ बाग आदि नहीं है।
3. विक्रीत सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल 31.1 वर्गमीटर। सुपर एरिया
4. विक्रीत सम्पत्ति नगर पालिका मसूरी के अन्तर्गत स्थित है, तथा विक्रीत सम्पत्ति सरकुलर रोड पर स्थित है, विक्रीत सम्पत्ति प्लैट है, का सरकारी मूल्य $31.1 \times 18,500/-$ रुपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार = $5,75,500/-$ रुपये, होता है, वर्णित सम्पत्ति में 6 प्लैट निर्मित है, जिनका क्रमिक एरिया 10-वर्गमीटर है, जिसमें से वर्णित प्लैट का एरिया $1.66 \times 4,500 = 7,500$ रुपये होता है इस प्रकार कुल मूल्यांकन $5,83,000/-$ रुपये होता है, परन्तु वास्तविक विक्रय मूल्य $6,00,000/-$ रुपये जिस पर नियमानुसार 3.75 प्रतिशत की दर से $22,500/-$ रुपये, का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है, क्रेता पहली बार स्टाम्प में छूट ले रही है।
5. विक्रीत सम्पत्ति सीलिंग अधिनियम से प्रभावित नहीं है।
6. यह कि वर्णित सम्पत्ति में छह प्लैट हैं, जिनके द्वितीय तल की छत पर संयुक्त कार पार्किंग दी गयी है, जिसकी छत सर्कुलर रोड से मिलती है।

R. Narain

Rawat



7. यह कि वर्णित सम्पत्ति में रेरा के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तथा प्रश्नगत सम्पत्ति रियल इस्टेट एक्ट 2016 एवं यथा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रियल इस्टेट नियमावली 2017 में वर्णित सम्पत्ति रियल इस्टेट प्रोजेक्ट भूमि के अन्तर्गत नहीं है, तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं एवं विक्रेता प्रमोटर/डेवलपर्स/रियल इस्टेट एंजेंट नहीं है
8. यह कि विक्रीत सम्पत्ति नगर पालिका सीमा मसूरी के अन्तर्गत स्थित है।
9. यह कि वर्णित भूमि लैटिट्यूड 30.452771 एवं लॉन्गिट्यूड 78.057489 पर स्थित है।
10. यह कि यह विक्रय विलेख विक्रेता, क्रेता के वारिसान, उत्तराधिकारी, हित-प्रतिनिधि आदि पर लागू व प्रभावी रहेगा।

: विवरण विक्रीत सम्पत्ति :



सम्पत्ति संख्या जी-2 (मध्य-भूतल), दून व्यू-कॉटेज जो कि राधा भवन इस्टेट के नाम से जाना जाता है, स्थित सर्कुलर रोड, मसूरी, देहरादून पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल 335.9 वर्गमीटर यानि 31.1 वर्गमीटर सुपर एरिया जिसमें एक बैड रूम, ड्राईंग कम डाइनिंग रूम, एक किचन, बाथरूम जिसकी नाप व सीमाएं निम्न प्रकार हैं :-


पूरब में	:	फ्लैट नंबर जी 3
पश्चिम में	:	फ्लैट नंबर जी 1 -श्री.एस0के0 वर्मा
उत्तर में	:	4 फीट कॉमन पैसेज
दक्षिण में	:	भूमि

R. Narain


Rawat



रजिस्ट्रेशन अधिनियम -1908 की धारा 32 -ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स
 प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता- श्री आर० नारायण पुत्र स्व. श्री गंगली प्रसाद निवासी
 ग्राम नसेनियां, पो.ओ. डिघरुआ, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर, उ०प्र०, हाल निवासी
 विण्डलास रेजीडेन्सी, ए-404, 12 कर्जन रोड, डालनवाला, देहरादून।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




R. Haras

हस्ताक्षर विक्रेता

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता- श्रीमती शांति रावत पत्नी श्री अमर पाल सिंह रावत
 निवासी सी-10, सेक्टर 1, डिफेंस कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



Rawat
 हस्ताक्षर क्रेता



Rawat

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27-02-2019 स्थान देहरादून में लिख दिया गया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे, तथा विक्रेता व क्रेता ने गवाहों के समक्ष व गवाहों ने विक्रेता एवं क्रेता के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

R. Karan
हो विक्रेता

Buwal
हो क्रेता

गवाह 1 - श्री रविंदर सिंह बुटोला
पुत्र श्री अब्दुल सिंह बुटोला
नि० बुटोला निवास, ग्ले ग्रोन कॉटेज
मसूरी, जिला देहरादून
ID Ad. No.7941 73871643

गवाह 2 - श्री अमरपाल सिंह रावत
पुत्र श्री गुमान सिंह रावत
नि० सी 10, सेक्टर 1, डिफेन्स कालोनी
देहरादून
ID Ad No: 9502 0366 1604



विक्रम सिंह राणा, एडवोकेट, देहरादून। एवं फोटो सत्यापितकर्ता विक्रेता, क्रेता स्वयं।

ATTESTED

Richa Mittal
RICHIA MITTAL, Advocate & Notary
Dehradun (Uttarakhand) India
Reg. No.-04(01)2018



वही संख्या 1 जिल्द 2,689 के पृष्ठ 173 से 198 पर क्रमांक 2483
पर आज दिनांक 27 Feb 2019 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय
27 Feb 2019






Scanned with
CamScanner

मानचित्र

सम्पत्ति संख्या जी-2 (मध्य भूतल) दून यू कॉटेज जो कि राधा भवन इस्टेट के नाम से भी जाना जाता है, स्थित सर्कुलर रोड, मसूरी, देहरादून पूर्ण निर्मित क्षेत्रफल 335.9 वर्गफीट यानि 31.1 वर्गमीटर सुपर एरिया जिसमें एक बेड रूम, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, एक किचन, बाथरूम।

विक्रेता—श्री आर० नारायण पुत्र स्व. श्री मंगली प्रसाद
क्रेता—श्रीमती शांति रावत पत्नी श्री अमर पाल सिंह रावत।



R. Karan
ह० विक्रेता

Baawat
ह० क्रेता

- ① 100 ए.ग.प. पत्र
- ② 1-1 पत्र

बही संख्या 1 जिल्द 2,689 के पृष्ठ 173 से 198 पर क्रमांक 2483
पर आज दिनांक 27 Feb 2019 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देहरादून, तृतीय
27 Feb 2019

